

# NCERT Solutions for Class 11 Geography

## Fundamentals of Physical Geography Chapter 14 (Hindi Medium)

### [NCERT TEXTBOOK QUESTIONS SOLVED] (पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न)

#### प्र० १. बहुवैकल्पिक प्रश्न

(i) महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है?

(क) ज्वार

(ख) तरंग

(ग) धाराएँ।

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (क) ज्वार

(ii) वृहत ज्वार आने का क्या कारण है?

(क) सूर्य और चंद्रमा का पृथकी पर एक ही दिशा में गुलत्वाकर्षण बल

(ख) सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथकी पर गुलत्वाकर्षण बल

(ग) तटरेखा का दंतुरित होना

(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर- (क) सूर्य और चंद्रमा का पृथकी पर एक ही दिशा में गुलत्वाकर्षण बल।

(iii) पृथकी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है?

(क) अपसौर

(ख) उपसौर

(ग) उपभू

(घ) अपभू

उत्तर- (ग) उपभू

(iv) पृथकी उपसौर की स्थिति कब होती है?

(क) अक्षूबर

(ख) जुलाई

(ग) सितंबर

(घ) जनवरी

उत्तर- (घ) जनवरी

#### प्र० २. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग ३० शब्दों में दीजिए।

(i) तरंगें क्या हैं?

उत्तर- तरंगें वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर-पार गति करती हैं। तरंगों में जल-कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुँचती है, इसकी गति कम हो जाती है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं।

### (ii) महासागरीय तरंगें ऊर्जाकहाँ से प्राप्त करती हैं?

उत्तर- वायु जल को ऊर्जाप्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जातटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंगें वायु से ऊर्जाको अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल के विपरीत दिशा में गतिमान होने से उत्पन्न होती हैं।

### (iii) ज्वार-भाटा क्या है?

उत्तर- चंद्रमा एवं सूर्यके आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार-भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का जल समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है और जब समुद्र का जल नीचे की ओर होता है तो उसे भाटा कहा जाता है।

### (iv) ज्वार-भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर- चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्यके गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार-भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथकी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार-भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथकी के भाग पर एक ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है।

### (v) ज्वार-भाटा नौसंचालन से कैसे संबंधित है?

उत्तर- ज्वार-भाटा नौसंचालकोंव मछुआरोंको उनके कार्य-संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौसंचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊँचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर नदियोंके किनारे वाले बंदरगाहोंपर एवं ज्वारनदमुख के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएँ होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजोंको बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकती हैं। जिस नदी के समुद्री तट के मुहाने पर | बंदरगाह हो और जब ज्वार आता है तो बड़े-बड़े जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर जाते हैं। इसका उदाहरण भारत के हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता बंदरगाह है।

## प्र० ३. निम्नलिखित प्रश्नोंके उत्तर लगभग 150 शब्दोंमें दीजिए।

### (i) जलधाराएँ तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? उत्तर-पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रोंके तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं?

उत्तर- जलधाराएँ अधिक तापमान वाले क्षेत्रोंसे कम तापमान वाले क्षेत्रोंकी ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्रोंसे अधिक तापमान वाले क्षेत्रोंकी ओर बहती हैं। जब ये धाराएँ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती हैं तो ये उन क्षेत्रोंके तापमान को प्रभावित करती हैं। किसी भी जलराशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है। इसी कारण विषुवतीय क्षेत्रोंसे उच्च अक्षांशोंवाले ठंडे क्षेत्रोंकी ओर बहने वाली जलधाराएँ उन क्षेत्रोंकी वायु के तापमान को बढ़ा देती हैं। उदाहरणार्थ गर्म उत्तरी अटलांटिक अपवाह जो उत्तर की ओर यूरोप के पश्चिमी तट की ओर बहती है। यह ब्रिटेन और नार्वे के तट पर शीत क्रतु में भी बर्फ नहीं जमने देती। जलधाराओंका जलवायु पर प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जब आप समान अक्षांशोंपर स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह की शीत क्रतु की तुलना कनाडा के उत्तरी-पूर्वी तट की शीत क्रतु से करते हैं। कनाडा का उत्तरी-पूर्वी तट लेब्राडोर की ठंडी धारा के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए यह शीत क्रतु में बर्फ से ढका रहता है।

### (ii) जलधाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं?

उत्तर- महासागरीय जलधाराओंको उत्पन्न करने वाले कारक निम्न हैं

(क) प्रचलित पवनें – धाराओंको उत्पन्न करने में प्रचलित पवनोंका बहुत बड़ा योगदान

होता है। प्रचलित पवनें सदा एक ही दिशा में चलती हैं। ये सागर के ऊपरी तल पर से गुजरते समय जल को अपनी घर्षण शक्ति से सदा आगे धकेलती हैं। और धाराओं को जन्म देती हैं।

**(ख) तापमान में भिन्नता** – गर्म जल हल्का होकर फैलता है, इसलिए उसका तल ऊँचा हो जाता है। ठंडा जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर आ जाता है और महासागरीय धाराओं का जन्म होता है।

**(ग) लवणता में अंतर** – अधिक लवणता वाला जल भारी होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। उसका स्थान लेने के लिए कम लवणता तथा घनत्व वाला जल आता है और एक धारा बन जाती है।

**(घ) वाष्पीकरण** – जिन स्थानों पर वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ पर जल का तल नीचे हो जाता है। और संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ अन्य क्षेत्रों से जल एकत्रित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक धारा उत्पन्न होती है।

**(ङ) भूधूणन** – पृथकी अपने अक्ष पर धूणन करती है, जिससे कोटिअॉलिस बल उत्पन्न हो जाता है। कोटिअॉलिस बल के प्रभावाधीन बहता हुआ जल मुड़कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करता है, जिसे गायर्स कहते हैं। इन गायर्स में जल का परिसरण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुँहयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुँहयों के प्रतिकूल होता है। अतः फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएँ अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इससे नई धाराएँ बनती हैं।

**(च) तटरेखा की आकृति** – तटरेखा की आकृति का महासागरीय धाराओं की प्रवाहे-दिशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तरी हिंद महासागर में पैदा होने वाली धाराएँ भारतीय प्रायद्वीप की तट रेखा का अनुसरण करती हैं।

**(छ) क्रतु परिवर्तन** – उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री धाराओं की दिशा क्रतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। शीत क्रतु में मानसून ड्रिफ्ट की दिशा पूर्व से पश्चिम तथा ग्रीष्म क्रतु में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हिंद महासागर में भूमध्य रेखीय विपरीत धारा केवल शीत क्रतु में ही होती है और भूमध्यरेखीय धारा केवल ग्रीष्म क्रतु में बहती है।